

CIN -L31501HR1973PLC007543

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110 008 **Ph.:** +91-11-25810093-96, 47108000 **Fax**: +91-11-25789560

E-mail: cs@surya.in Website: www.surya.co.in

SRL/23-24/20 August 03, 2023

The Stock Exchange, Mumbai New Trading Ring, 14th Floor, Rotunda Building, P.J.Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI - 400 001

MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 500336 The Manager (Listing Department)
The National stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
NSE Symbol: SURYAROSNI

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Madam / Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose e-copies of newspaper advertisement published on 3rd August, 2023 related to Notice to the Equity Shareholders for transfer of equity shares on which Dividend is unpaid / unclaimed for 7 consecutive years to Investor Education and Protection Fund in following newspapers:

- 1 Business Standard (English Edition) New Delhi
- 2. Business Standard (Hindi Edition) Chandigarh

The above information is also available on the website of the Company www.surya.co.in

The date and time of occurrence of the event is 3rd August, 2023 at 10:00 A.M

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully
For Surya Roshni Limited

B. B. SINGAL CFO & COMPANY SECRETARY

Enclosed: as above



यूको बैंक 👔 UCO BANK Branch: Uco Bank, NEI, Khatipura Road, Jaipur-302006 E-mail: khatin@ucohank.co.in

Appendix IV (See Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE For Immovable Property
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Uco Bank under the Secruitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in
execrise of powers conferred under Section 13(2) read with Rules of the Security Interest
(Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 23.05.2023 calling upon the Borrower/
Director/ Guarantor- (1) Smt. Shyamlata Gayal W/o Shri Ravi Kumar Goyal, (2) Shri Ravi Kumar
Goyal S/o Late Shri Kailash Chand Goyal, (3) Shri Ami Ktumar Goyal S/o Shri Ravi Kumar Goyal,
Address- House No. 134, Shreeji Nagar, Durgapura, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan) 302018 to
repay the amount mentioned in the notice being in Rs. 1,13,17,697/- (in words Rupees One Crore
Thirdeen Lakh Seventeen Thousand Six Hundred Ninety Seven Only) as on 08.05.2023 (interest
including upto 31.01.2023) within 60 days from the date of notice together with further interest,
incidental expenses, costs, charges etc. till date of payment and / or realization. The Borrower
having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower in particular and to the
public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below
in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8(1)
of the said Rules on 31.07.2023. The Borrower in particular and the public in general is hereby
cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the
charge of the UCO Bank for an amount of in in Rs. 1,13,17,697/- (in words Rupees One Crore
Thirdeen Lakh Seventeen Thousand Six Hundred Ninety Seven Only) as on 08.05.2023 (interest
including upto 31.01.2023) + interest & incidental expenses incurred by Bank.
Further, we invite your attention to section 13(8) of the Act wherein it has been provided that you
may redeem the secured assets by tendering the entire amount due together with costs, charges
an Appendix IV (See Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE For Immovable Property

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY Residential Property situated at House No. 134, Shreeji Nagar, Durgapura, Tonk Road Jaipur (Raj) 302018; having admeasuring 201.66 Sq. Yds. in the name of Smt Shyamlata Goyal & Sh. Ravi Kumar Goyal. **Bounded** by: **East:** Plot No. 133, **West:** Plo No. 135, North: Other Property, South: Rasta (Road).

Date: 31.07.2023 Place: Jaipur Authorised Officer, UCO Bank

Branch: Kota वेक ऑफ़ इंडिया BOI Jodhpur Zone NOTICE FOR PUBLIC AUCTION OF PLEDGED GOLD JEWELLERY/ORNAMENTS/COIN

It is hereby brought to the notice of the following gold loan borrowers, their legal heirs, persons engaged in business of gold jewellery/omaments/coins and general public that inspite of repeated reminders/ notices by the Bank, the following borrowers are not repaying their dues to the Bank. Notice is hereby published that if they fail to deposit all their dues in their respective gold loan accounts (including up-to-date interest and all costs charges/expenses) by 16.08.2023, their pledged gold jewellery/omaments/ coins will be put up for public auction in the branch premises. For this, Bank shall not be held responsible for any Inconvenience or damage caused to the concerned borrowers and no allegations or representations will be entertained from any borrowers in this regard. Persons interested to take part in the bidding should deposit Rs.500-(Rupees Five Hundred only) with the Branch Manager before the scheduled time/ date towards earnest money. Persons having taken part in final bidding must be able to deposit full amount to the Bank within 48 hours, failing which their earnest money. deposited with the Bank will be forfeited. Bank reserves the right to cancel the auction without assigning any reasons in case, amount to the bank within 46 hours, falling which their earnest money, deposited with the bank with be forfeited. Bank reserves the right to cancel the auction without assigning any reasons in case the bidding price so amwed at, is observed to be low or inadequate. Further, if need be, Bank reserves the right to change the date, time or place of the above scheduled auction or cancel the same without assigning any reasons thereon.

Name & Address of Borrower	Outstanding Dues	Account No. & Gross Weight of Gold	Reserve Price	Date, Time & Place of Auction
Mr. Vinay Kumar Sharma S/o Ram Prakash Address: H No. 4-R-6, Near Suvi Hospital, Talwandi, Kota (Raj.) Pin-324005	Rs. 5,51,588.19 + interest + charges	662077610000458 Necklace (with Dori) - 28.500 Grams, Mukut - 10.800 Grams, Vansi- 6.700 Grams, Necklace- 6.000 Grams, Mangal Sutra- 24.40 Grams, Chain 2 (with Pendil)- 36.280 Grams, Chain- 12.370 Grams, Grams, Ring 3- 19.940 Gr	Grams, Man Earring 4 (W	ith Pench)- 23.200
Date: 03.08.2023		Auti	horised Offi	cer, Bank of India

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India solvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 20161

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M.U. BUILDCON PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	M.U. BUILDCON PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	05th August 2011
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U45400DL2011PTC223329
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	728, First Floor, Gali Abdul Salam Qureshi Green Market, BaratootiChowk, Delhi DL 110006 IN
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	01st August 2023
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	27th January 2024 (180th day from the date of Commencement of CIRP)
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Name: Ms. Deepa Gupta Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00867/2019-2020/12801
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	Address: B-2/110, Sector-16, Rohini, North East Delhi, Delhi -110089 Email : advocate.deepa.gupta@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Address: B-2/110, Sector-16, Rohini, North East Delhi, Delhi -110089 Email : cirp.mubuildcon@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	16th August 2023
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not Applicable at Present
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	Not Applicable at Present
14.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Relevant Forms are available at: https://libbi.gov.in/en/home/downloads Physical Address: Same as mentioned against entry No. 10 (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M.U. Buildcon Private Limited on 01st August 2023. The creditors of M.U. Buildcon Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 16th August 2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Interim Resolution Professional, M.U. BUILDCON PRIVATE LIMITED Date: 03 08 2023 Place: New Delh IP Read, No.: IBBI/IPA-002/IP-N00867/2019-2020/12801 Regd. Address: B-2/110, Sector-16, Rohini, North East Delhi, Delhi -110089

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI CP (CAA)-37/230/232/ND/2023 **CONNECTED WITH**

CA (CAA) No. 113/230-232/ND/2022 [under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013] IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

IN THE MATTER OF:

entry No. 10.

Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

IN THE MATTER OF: Scheme of Amalgamation between JTEKT Fuji Kiko Automotive India Limited and JTEKT India Limited and their respective Shareholders and Creditors

IN THE MATTER OF:

JTEKT FUJI KIKO AUTOMOTIVE INDIA LIMITED CIN: U35122DL2007PLC166496. PAN: AALCS0656E, a public limited company

incorporated under the Companies Act. 1956, having its Registered Office at UGF-6, Indraprakash, ..Petitioner Transferor Company 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001 AND JTEKT INDIA LIMITED

CIN: L29113DL1984PLC018415 PAN: AABCS7787C, a public limited company incorporated under the Companies Act, 1956, having its Registered Office at UGF-6. Indraprakash. ..Petitione Transferee Company 21. Barakhamba Road, New Delhi-110001.

NOTICE OF PETITION

TAKE NOTICE that a Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act. 2013, for obtaining sanction of the National Company Law Tribunal, Bench at New Delhi to a Scheme of Amalgamation between JTEKT Fuji Kiko Automotive India Limited and JTEK India Limited and their respective Shareholders and Creditors ("Scheme"), was presented by the Petitioner Companies to the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench a New Delhi and was listed for hearing on 21st July, 2023. The said Petition is now fixed for hearing on 13th September, 2023.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition, should send to the Petitioner Companies Advocate, notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/her name and address so as to reach the Petitioner Companies Advocate not later than two (2) days before the date fixed for hearing of the Petition

Where he/she seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the

same on payment of the prescribed charges for the same. Dated this 2nd day of August, 2023.

[ANIRUDH DAS/ADITYA THYAGARAJAN SHARDUL AMARCHAND MANGALDAS & CO ADVOCATES FOR THE PETITIONER COMPANIES AMARCHAND TOWERS, 216, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE PHASE-III, NEW DELHI - 110 020 PH.: 26920500, 51590700, FAX: 26922900, 26924900 EMAIL: anirudh.das@amsshardul.com

Date: 03.08.2023

पश् आहार संयंत्र (CATTLE FEED FACTORY)

मांगलिया, जिला इंदौर-453771 (म.प्र.) Factory - Phone : 9685559289 E-mail: sudana_manglia@rediffmail.com. sudana.manglia@gmail.com H.O.: Indore Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, Indore (M.P.) Phone: 0731-2802535, 2802554, 2802553, GSTIN: 23AAAJI0016N1ZK

क्रमांक/168/पआसं/मांगलिया/क्रय/2023 दिनांक: 02.08.2023

ई- निविदा सूचना

पश आहार संयंत्र. मांगलिया जिला: इन्दौर, बण्डोल जिला सिवनी, सागर एवं शिवपरी संयंत्रों द्वारा उत्पादित सदाना पशुँ आहार पैकिंग हेतु HDPE/PP बैग क्रय हेतु ई-टेन्डर द्वारा ऑनलाइन निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा में दिनांक 22.08.2023 की सुबह 10.30 बजे तक दरें प्रस्तुत की जा सकती हैं। विस्तृत निविदा प्रपत्र ई-निविदा पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही जारी किये जाएंगे, इसका पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु www. sanchidairy.com पर लॉग आन करें।

HDPE/PP बैग क्रय Tender ID-2023 MPCDF 296149 1

क्र	विवरण		मांग मात्रा प्रति	माह (लगभग)			
		प.आ.सं, मांगलिया	प.आ.सं, बंडोल	प.आ.सं, सागर	प.आ.सं, शिवपुरी		
1	HDPE/PP बैग 140 ग्राम	80000	17000	20000	30000		
2	HDPE/PP बैग 75 ग्राम	-	2500	-	-		
-π	шкашт/1.1.1.1.70/2022			गाठा ह	- टार्गामञ्जू अधिकारी		

सूदाना पश् आहार

SUDANA

सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छा पश आहार



Details of Borrower(s) and Guarantor(s)

Of

Р

IDBI Bank Limited Zonal Office, First Floor, Centre Point, Commercial Complex, T. T. Nagar, New Market, Bhopal 462003 Ph: 0755-4848321 E-mail:mahendra.agarwal@idbi.co.

NOTICE

Amount of total

outstanding dues

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE SECURED ASSET

(As per Proviso to Sub-Rule (1) of Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002) Notice is hereby given to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the immovable secured asset described in the table below nortgaged to the secured creditor i.e. IDBI BANK LIMITED, Regional office, 2nd Floor, NY Tower, Plot No.13, Pratap Rao Phalke Colony, Ward, Opp. Shri Ram Colony, Chetakpuri, Gwalior 474001 (Madhya Pradesh) in the physical possession of the secured reditor will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" after 30 days from the date of this notice fo ecovery of Rs. 59,50,411.00/- (Rupees Fifty Nine Lakhs Fifty thousand Four hundred and Eleven Only) as on September 10 2018 together with further interest thereon at contractual rates with effect from September 11, 2018 until realization.

Description of immovable secured

asset (including known encumbrances)

Details of Borrower(s) and Guarantor(s), immovable secured asset to be sold including known encumbrances, amount of total outstanding dues are as mentioned in the table below

Place: Gurgaon Date: 03.08.2023		Authorised Officer IDBI Bank Ltd.
Flat No. 701, 7th Floor, The Green ampus Co-Op Group Housing Society Ltd, lot No GH-21, Sector-1, IMT Manesar, surgaon, Haryana-122050 Flat No. 401 Virendra Villas, Behind SP fffice City Centre, Gwalior, M.P474011 o-Borrower - Mrs. Anita Raghav Flat No. 701, 7th Floor, The Green ampus Co-Op Group Housing Society Ltd, lot No GH-21, Sector-1, IMT Manesar, large and Large an	piece and parcel of Residential rilat No.701, 7th Floor, The Green o-op Group Housing Society Ltd, GH-21, Sector-1, IMT Manesar, Haryana-122050 admeasuring which is bounded as follows. On a East by: Service Road (below), ards West by: Road (Below), On its South by: Entrance, On or orth by: Road (Below) with all and singular the structures ions thereon, both present and	Rs. 59,50,411.00/- (Rupees Fifty Nine Lakhs Fifty Thousand Four Hundred and Eleven Only) as on September 10, 2018 together with further interest thereon at contractual rates with effect from September 11, 2018 until realization.

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा सं0 :- 02/2023-24/RWD/EE/HAZARIBAG दिनांक :- 01.08.2023

1. कार्य की विवरणी :						
क्र0		कार्य का नाम	प्राक्कलित र	शि (रुपया में)	कार्य समाप्ति	
सं0	संख्या / पैकेज संख्या	प्राय प्रा नान	अंक में	अक्षर में	की अवधि	
1	RWD/HAZ/MMGSY/ 08/2023-24	पंचायत कुसुम्बा जमुआरी हिन्दी स्कूल से जमुआरी होते हुए ओदरना तक पथ	4,53,92,900/	चार करोड़ तीरपन लाख बेरान्वे	9 (नौ) माह	
2 3	न्यार्टन में चितिहा प्रकाशन व	निर्माण कार्य (लंग-4.150 किंग्मी०)		हजार नौ सौ मात्र		

3.ई—निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :—16.08.2023 अपराह्न 5.00 बजे तक । 4.(क) जिला नियंत्रण कक्ष, रॉची (ख) मुख्य अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रॉची (ग) जिला नियंत्रण कक्ष हजारीबाग में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय–17.08. 2023 अपराहन 3.30 बजे तक ।

5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग, इन्द्रपुरी चौक, हजारीबाग के नजदीक, हजारीबाग, झारखण्ड, पिन-825301 को भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि एवं समय (17.08.2023 अपूराहून 3.30 बजे तक) से पूर्व प्राप्त हो जाय । अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त निविदा शल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा ।

निविदा खोलने की, तिथि, समय एवं स्थान–18.08.2023 पूर्वाहन 3.30 बजे, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभागः कार्य प्रमण्डलः हजारीबागः ।

निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग ।

ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0-06546-265286 ।

निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक / अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निविदाकार के नाम / अकाउंट से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग के पक्ष में एवं हजारीबाग में भगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा ।

गृद्धि किसी कारणवर्ष उपयोक्त अंकित विशिगों में अवकाश घोषित होता है तो अगले कार्यदिवस में अंकित कंडिकाओं क कार्य किया जायेगा एवं सभी शर्ते पर्ववत रहेगी ।

10 परिमाण विपन्न की राशि घट या बढ़ सकती है।

10. परिभाण विषत्र का सारा वेट पा पूर्व समस्या है । विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है । **कार्यपालक अभियंता,**

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग। PR.NO.303882 Rural Work Department(23-24):D

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.

Regd: Off.-6th Floor, Plot-15, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana-122002 Branch Office: Shop NO. S9, First Floor, Lajpat Nagar, GT Road, Ne o PNB Bank, Panipat 132103, First Floor, Opp Gurudwara, Near Punjab National Bank, Chalit Farm, Bazpur Road, Kashipur, Uttarakhand- 244713, Shcho. 6, Upper Ground Floor, C.R. Mall, Church Road, Ram Nagar Colony, Agra 282002, Office No-4,5,6,7, First Floor, Shree Ram Palace, Bhoja Market, Secto 27, Near Vinayak Hospital, Atta, Gautam Buddh Nagar, Noida-201301, Uttar Pradesh.

DEMAND NOTICE

Notice Under Section 13(2) Of The Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002.
NOTICE is hereby given that the following borrower's who have availed loan from India Shelter Finance Corporation Ltd. (ISFCL) have failed to pay Equate Monthly Installments (EMIs) of their Loan to ISECL and that their Loan Account has been classified as Non-Performing. Asset as per the guidelines issued by ational Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable properties to ISFCL, the details of which are described herein below. Ti tetails of the Loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to ISECL as on date are also indicated here below. The borrower(s) as well as the ublic in general are hereby informed that the undersigned being the Authorised Officer of ISFCL, the secured creditor has initiated action against the following orrower(s) under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of security Interest Act 2002 and issued notic nder this Act details mentioned below. If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60(Sixty) days of the otice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the secured Creditor under sub-section (4) of the section-13 of the SARFAES Act, including the power to take the possession and sell the same. The public in general is advised not to deal with properties described herein below

Name of the Borrower(s)/ Guarantor/legal heir/legal representative, Loan account no.	NPA date / Demand Notice	Amount	Description of secured Asset(s) (immovable properties)
Varsha Rani, Rajesh Kumar Sharma Loan Account No. LAP200000577T0/ AP-0141818	06.06.2023/ 20.06.2023	I- (Rupees Eight Lakh Twenty Two Thousand One Hundred Two Paise Twenty Only) Due on 10.06.2023 together with interest from 11.06.2023 and other charges and costtill the date of the payment.	All Piece And Parcel Of Plot out of 08 Kanal, comprised in Khewat No. 103, Khatoni no. 123, Killa No. 14(8-0), Village Taraf Mukhdum zadgan, Tehsil and District Panipat, Area 54 Sq. Yards. Boundary: East- House of Shishpal, West- House of Pradeep Kumar, North- House of Shaliram Gupta, South-Street.
Indu Mati, Birender Kumar LOAN ACCOUNT NO. H L 1 1 L I L O N S 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6 9 / AP-10020218	06.06.2023 / 20.06.2023	₹ 270691.95/- (Rupees Two Lakh	Boundary: Fast- Road West- Other Plot
Geeta Singh, . Veeresh kumar singh Loan Account No. LAKSECLONS00005008038 /AP-10097877 & AP-10014156	06.06.2023/ 20.06.2023	Rupees Fifty Lakh Forty Three	Others West- Drain North- Remaining part of
Kamlesh, Sanni Loan Account No. LAP200005630 & LA28ECLONS000005040813/ AP- 0409711&AP-10084387	06.06.2023/ 20.06.2023	Demand Notice Amount 386813.85/- (Rupees Three Lahk Sixty Six Thousand Eight Hundred Thirteen Paise Eighty Five Only) Due on 10.05.2023 together with interest from 11.06.2023 and other charges and cost till the date of the payment.	Nigam No. 38A/N.P./25.A, Nagla Parsoti Mauza Chak Pancham, Tehsil & District Agra, Uttar Pradesh. Area 83.61 Sq. Mtrs. Boundary: East- Land of Seller, West- Land of Viri Singh, North- Common way & Exit, South- Land of Seller
Jamna Devi, Nak Ram Thakur Loan Account No.HL26000000044 & LA11TLLONS000005010750 / AP-0390896 & AP-10026498	06.06.2023/ 20.06.2023	Demand Notice Amount 4481976.15/- (Rupees Four Lakh Eighty One Thousand Nine Hundred Seventy Six Paise Fifteen Only) Due on 10.06.2023logether with interest from 11.06.2023 and other charges and cost till the date of the payment.	Property No. 671-A, Gali No. 7B, Khasra No. 83, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi. Area 28 Sq. Yards.
Place: Haryana, Uttaranchal & Uttar Pradesh			Authorised Officer

India Shelter Finance Corporation Ltd

Himachal Pradesh Jal Shakti Vibhag **NOTICE INVITING E-TENDER**

Online bids on items rate basis are invited by the Executive Engineer, JSV Division Rohru Distt Shimla (H.P. on behalf of Governor of Himachal Pradesh, in electronic tendering system in two covers for the under mentione

wor	k from the contractors/firms of appropriate class enlisted with H	imachal Prade	sh JSV D)epartm	ent.
SI.	Name of Work	Estimated	Earnest	Time	Cost of
No. 1		Cost	money		tender form
1	Providing. Lift irrigation Scheme for Horticulture Land from Pabber River to group of Villages in G.P.Karasa and Ukhli-Mendhali Tehsil Rohru Distt. Shimla (HP)(SH:- Providing, laying and jointing of Rising main for API-X42 , X70 , L-210 and laying and jointing of GI (Heavy and Medium) class pipe for Stage- Ist , 2nd and 1st A and Supplying and erection of Pumping Machinary & its allied accessories for all stages) under NABARD Tender ID 2023_HPIPH_77017_1	23893822	278938	1 Year	2500
For detailed terms and conditions, NIT etc visit Portal http://hptenders.gov.in					
100	20200000000				e Engineer, ision, Rohru

1927/2023-2024

Aadhar Housing Finance Ltd. Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway

and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.

Bijnor Branch: Shop No. - 11, 1st Floor, Aadarik Plaza, Kirat Pur Road, Bijnor-246731(UP)

APPENDIX IV **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under

WII	n interest thereon.			
Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co Borrower(s)(Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 13700000195 / Bijnor Branch) Suaib (Borrower), Riyajuddeen, Shabana (Co-Borrowers) Mohd Salman & Mohd Vakeel Ansari (Guarantors)	All that piece and parcel of property bearing, Shop on Khasra No.256 Patiya Para Chandpur, Bijnor, Uttar Pradesh, 246725 Boundaries: East: Property of Naresh Agarwal and Megha Dev, West: Property of Illiyas, North: Remaining Property of Seller, South: PWD Bijnor Road	11-04-2023 ₹ 8,58,129/-	28-07-2023
2	(Loan Code No. 13700000308 / Bijnor Branch) Saifur Rehman (Borrower), Fatima (Co-Borrower)	All that piece and parcel of property bearing, Pateri H No.45 43 Old 40 35 Moh Pateri Nagina , Bijnor, Uttar Pradesh, 246762 Boundaries : East : 33 Ft. House Abdul Salam, West : 33 Ft. House of Noor Jhan, North : 28 Ft. House of Abdul Rashid, South : 25 Ft. Road 10 Ft. Wide Road	11-07-2022 ₹ 6,93,400/-	28-07-2023
3	(Loan Code No. 13710000019/ Bijnor Branch) Qutubuddin Naseeruddin (Borrower), Khurshida Begam (Co-Borrower)	All that piece and parcel of property bearing, Kotwali Nehtaur Road Vill Pittanhedi Nagina Bijnor Uttar Pradesh 246764, Boundaries : East: 28 Ft /House Naseeruddin, West: 28 Ft/House Ayyub and Gafoor, North: 22 Ft 8in/ House Shamshuddin, South: 22 Ft 8in/ Road 12 Ft.	16-04-2023 ₹ 7,57,805/-	28-07-2023
4	(Loan Code No. 13710000115/ Bijnor Branch) Suneel Kumar (Borrower) Santosh Bhudev (Co-Borrower)	All that piece and parcel of property bearing, Nagina Road Moh-Bundaki Daliapur Najibabad Bijnor Uttar Pradesh 246763, Boundaries : East: Arazi Vikreta // 39 Ft., West: Arazi Hira Masala Wala // 39 Ft, North: Arazi Vikreta // 23.5 Ft, South: Road 6 Ft wide//23.5 Ft	15-05-2023 ₹ 7,91,580/-	28-07-2023

Authorised Officer Place: Uttar Pradesh **Aadhar Housing Finance Limited** Date: 03.08.2023

Regd. Office: Prakash Nagar, Sankhol, Bahadurgarh – 124507 (Haryana)
Corporate Office: Padma Tower -1, 2nd Floor, 5 Rajendra Place, New Delhi - 110008
Corporate Identity Number (CIN) – L31501HR1973PLC007543
Phone: +91-1276-241540, 011-47108000 Fax No. +91-1276-241886 Website: www.surya.co.in, Email id: investorgrievances@sroshni.com

NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS REGARDING TRANSFER OF EQUITY SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID / UNCLAIMED FOR 7 CONSECUTIVE YEARS TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investo Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended by the Investor Education nd Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the Company is required to mandatorily transfer all shares in respect of which dividend amounts for seve consecutive years or more remains unclaimed to Investor Education and Protection Fund Suspense Account ("IEPF Suspense Account") with one of the Depository Participants to be identified by the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPI Adhering to the various requirements set out in the Rules, and in view of the MCA Circulars issued in regard to issue of notice, the

Company Registrar has sent registered post communication to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to Demat Account of the IEPF Authority, at their latest available address registered with the Company / Registrar requesting them to encash / claim such unclaimed dividends. The details of shareholders to whom such communication has been sent along with relevan details is available on company's website www.surva.co.in under 'Investor'.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th September, 2023, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in IEPF Rules, transfer the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority by the due date as stipulated in IEPF Rules, without any further notice as per procedure stipulated in IEPF Rules which are as

In case shares held in physical form by concerned shareholder Duplicate shares will be issued and transferred to IEPF through corporate action. The Original Share Certificate(s) which stand registered in your name and held by you will stand automatically cancelled.

In case shares are held in dematerialized form by the By informing the depository by way of corporate action, where the concerned shareholders have their accounts to debit the account and transfer the shares in favour of the IEPF Authority

In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment o dividend, the company will not transfer such shares to the Fund. Hence, in the event not even one dividend warrant from last seven consecutive years (for the Financial Year 2015-16 to 2022-23) is

validly claimed or specific restraining order is not received from the concerned shareholders in respect of such shares on or before 30 September, 2023, the Company will proceed to transfer the said Equity Shares to IEPF as stipulated in IEPF Rules, without any further notice. All further dividends and corporate benefits like bonus shares in respect of the shares so transferred will also be credited to IEPF. The Concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said share(s) along with the dividend(s) from IEPF

Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules. No claim shall, however, lie against the Company in respect of the said shares / unclaimed dividends / corporate benefits transferred to IEPF pursuant to the above mentioned Rules. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD/ RTAMB/P/ CIR/2021/655 date

3rd November. 2021 read with Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 ('Circulars') has made it mandatory for the shareholders holding securities in physical form to furnish PAN, KYC (complete address with pin-code, bank detail with MICR-CODE & IFS CODE Email-ID, Mobile Number) and Nomination details to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company. Registrar will not process, any service requests or complaints received from the member until unless above KYC and nomination will not be completed by shareholder and such shareholders holding will be freeze by RTA on or after 1st October, 2023. n your interest, we request you once again to claim your Dividends and avoid transfer of your shares to IEPF by sending to the Company

Registrar before the due date, a letter of undertaking (on plain paper) duly signed by the registered Shareholder(s) along with the vant form /documents as enumerated below for claiming Unclaimed Dividence

IN CASE OF SHARES IN PHYSICAL MODE 1. Form ISR-1 2. Form SH-13 3. Form ISR-2 (if signature differ with RTA/company record) 4. Original dividend warrant (if available) 5. Original Cancelled cheque (name of shareholder should be printed on it) bearing the name of the first shareholder or copy of bank pass book having MICR Code, IFSC and A/c No., duly attested by the Bank Manager 6. Copy of Pan of all shareholder(s) All form can be download from RTA website i.e. www.masserv.com under download
2. Form SH-13 3. Form ISR-2 (if signature differ with RTA/company record) 4. Original dividend warrant (if available) 5. Original Cancelled cheque (name of shareholder should be printed on it) bearing the name of the first shareholder or copy of bank pass book having MICR Code, IFSC and A/c No., duly attested by the Bank Manager 6. Copy of Pan of all shareholder(s)
tab or from the Company website www.surya.co.in under Investor

In case of any queries in this regard, the concerned shareholder may write/contact to the Company or Company's Registrar and Share

Transfer Agent at:	
Name and Address of the Company	Name and Address of Registrar (RTA)
Surya Roshni Limited	M/s MAS Services Limited
Secretarial Department	T-34, 2 nd Floor,
Padma Tower-1, 2 nd floor,	Okhla Industrial Area, Phase II,
5 Rajendra Place,	New Delhi 110 020,
New Delhi – 110008	Phone: 011-26387281/82/83,
Phone – 011 – 47108000, 47108111	Fax: 011-26387384,
Email : investorgrievances@sroshni.com	Email: investor@masserv.com

All the shareholders holding shares in physical mode are hereby requested to convert their shares in the Demat form at the earliest as per SEBI guidelines. Further SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSO_RTAMB/ P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated to issue securities in dematerialized form only while processing various service requests.

> For Surya Roshni Limited Sd/-B B Singa

Date: 2nd August, 2023 **CFO & Company Secretary** Place: New Delhi

Jul 2023 Aug Aug



वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के दौरान 79 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया ₹ 413.2 पिछला बंद भाव ₹ 400.4 आज का बंद भाव

ल्यूपिन यूएसएफडीए से एफए 993.9 1,005 टॉपिकल ऑयल के लिए मिली मंजूरी ₹ 988.3 पिछला बंद भाव ₹ 993.9 आज का बंद भाव Jul 2023 Aug Aug 0.6 %

सफायर फूड्स इंडिया वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 35 1,356.0^{1,390} प्रतिशत लुढ़का



290 भारतीय बाजार में बेहतरीन प्रोटीन लाने के लिए प्लाज्मा न्यूट्रिशन के साथ सहयोग ²⁵⁰ **₹ 258.9** पिछला बंद भाव Ø 241.8 230 **₹ 274.9** आज का बंद भाव 6.2 % **A**

संक्षेप में

अदाणी विल्मर को 79 करोड रुपये का घाटा

प्रमुख खाद्य तेल विनिर्माता कंपनी अदाणी विल्मर को चाल वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि यह घाटा खाद्य तेल कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 194 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। जून तिमाही में कुल आय भी 12 प्रतिशत गिरकर 12,928 करोड रुपये रह गई. जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,724 करोड़ रुपये थी। अदाणी विल्मर खाद्य तेल और अन्य खाद्य वस्तुओं को फॉर्च्यून ब्रांड के अंतर्गत बेचती है। अदाणी विल्मर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अंगशु मलिक ने कहा, खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के साथ हमने इस खंड में अपनी गति पकड़ ली है। खाद्य तेल कीमतों में गिरावट उद्योग की दृष्टि से अच्छी है।

कर्ज के बदले स्पाइसजेट में हिस्सा लेगी कार्लाइल

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने शेयरधारकों से अपने पट्टादाता कार्लाइल एविएशन पार्टनर के लिए 48 रुपये प्रति शेयर की दर से 5.91 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजरी मांगी है।

विमानन कंपनी ने कहा कि हिस्सेदारी देकर पट्टेदाता के 2.81 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाया जाएगा। कंपनी ने कहा, 'इससे कंपनी के कर्ज देनदारियों में कमी आएगी।' बुधवार को स्पाइसजेट के शेयर करीब 31 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। 27 फरवरी को विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा था कि वह कार्लाइल के 10 करोड़ डॉलर के कर्ज का पुनर्गठन करेगी। इसके बाद पट्टादाता विमानन कंपनी की 7.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा। नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी को अपने विमान पट्टेदारों को समय पर भुगतान करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

SURYA

वेदांत का हिस्सा बेचेंगे प्रवर्तक

4.3 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 50 करोड़ डॉलर जुटाएंगे प्रवर्तक, रकम से चुकाएंगे कर्ज

देव चटर्जी मुंबई, 2 अगस्त

3निल अभ्रवास अपना द्विन स्टार होल्डिंग्स अपना कर्ज चुकाने के लिए भारत में ■निल अग्रवाल प्रवर्तित इकाई सुचीबद्ध अपनी सहायक वेदांत लिमिटेड की 4.3 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 50 करोड़ डॉलर जुटा रही है।

शेयरों की बिक्री गुरुवार सुबह होगी और वेदांत के बुधवार के बंद भाव 272 रुपये के मुकाबले 5 फीसदी कम पर इसकी पेशकश की गई है। लेनदेन की शर्तों से यह जानकारी मिली।

अभी वेदांत में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 68.11 फीसदी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन बुधवार को 1.01 लाख करोड रुपये रहा।

पिछले कुछ महीनों में अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली लंदन की वेदांत रिसोर्सेस ने अपना कर्ज चकाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे विश्लेषक उम्मीद कर रहे हैं कि वेदांत रिसोर्सेस अगले 12 महीने में करीब 2 अरब डॉलर के कर्ज का भगतान कामयाबी के साथ

भारत में स्चीबद्ध सहायक की हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने की ताजा कवायद से प्रवर्तक इकाई को आगामी महीनों में परिपक्व होने वाले कर्ज के भुगतान में मदद मिलेगी। बैंकिंग सूत्रों ने यह जानकारी दी।



वेदांत का इरादा 2023-24 में अपना कर्ज घटाकर इसे शून्य करने का है

समह की प्रवर्तक इकाइयां पिछले कछ महीने से रकम जुटाने में लगी हुई है क्योंकि उसने जेपी मॉर्गन से 85 करोड़ डॉलर, ओकट्टी कैपिटल से 25 करोड़ डॉलर, ग्लेनकोर से 20 करोड़ डॉलर और कमोडिटी ट्रेंडर ट्राफिगरा से 20 करोड़ डॉलर का कर्ज लेकर कुल 1.3 अरब डॉलर जुटाए हैं। प्रवर्तकों ने अपनी भारतीय सहायक से ज्यादा रॉयल्टी भुगतान के जरिए भी रकम जुटाई है। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में

पृष्ठ 1 का शेष

दिया था।

विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

दिनांकः 02.08.2023

✓ YES BANK

स्थानः लुधियाना

दुनिया की इस सबसे बड़ी खनन

कंपनी ने 2017 में 'थिंक बिग'

नारे के साथ 1 करोड़ डॉलर का

अभियान शुरू किया था। साथ ही

उसने अपने नाम से बिलिटन हटा

भारत में एनटीपीसी ने भी अपनी

रीब्रांडिंग की और हरित ऊर्जा

स्रोतों में निवेश करते समय अपना

अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)

कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि)

कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)

आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार

प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के) (चालू व बंद परिचालनों के लिए) –

[अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात)

वेबसाइट www.parmeshwarisilkmills.com पर भी उपलब्ध है।

वेदांत लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को रिकॉर्ड 37,758 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जिससे मूल कंपनी को अपना कर्ज चुकाने में मदद मिली है। शेयर बिक्री पर वेदांत लिमिटेड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

वेदांत लिमिटेड से उदारतापूर्वक लाभांश मिलने के बाद वेदांत रिसोर्सेंस ने मई व जुन में देय 1.4 अरब डॉलर के बॉन्ड का भुगतान किया और अपना सकल कर्ज मार्च 2023 के आखिर के

कोल इंडियाः नया नाम, नई पहचान

पुराना नाम नैशनल थर्मल पावर

कॉरपोरेशन त्याग दिया। नवीन एवं

नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित

करने के लिए उसने अलग कंपनी

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी बनाई है।

एसजेवीएन जैसी कुछ अन्य

कंपनियों ने भी अपने मुख्य

कारोबार से इतर दूसरे क्षेत्रों में भी

जाने के लिए अपने नाम छोटे किए

हैं। मगर कुछ लोगों को इसमें बहुत

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(सेबी(एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1)(बी)

नोटः ऊपर सेबी (सूचीब़द्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही वित्तीय

परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः <u>www.bseindia.com</u> और कंपनी की

सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) को जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण किए गये मुलधन तथा ऋण सुविधा के ब्याज

के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा जिनके ऋण खाते गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को सूचना दी जाती है। उन्हें

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पर सूचनाए

जारी की गयी थीं किन्त उन्हें अनसर्व्ड वापस कर दिया गया और उन्हें इस सार्वजनिक सचना के माध्यम से सचित किया जाता है।

परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड

30.06.2023

203.8

203.86

152.03

152.03

300.11

5.07

वेबसाइट : www.yesbank.in, ई-मेल : comminications@yesbank.in, सीआईएन : L65190MH2003PLC143249

(अलेखापरीक्षित)

आरईसी

और

तिमाही समाप्त

31.03.2023

4671.4

174.87

173.78

93.87

93.87

300.11

3.13

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफवेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज ईस्ट, मुम्बई-4000

सूचना की

तिथि

जलाई-

2023

(लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित)

पीएफसी.

7.8 अरब डॉलर से घटाकर 6.4 अरब डॉलर पर ला दिया। कंपनी ने इस साल मई में यह जानकारी दी थी।

वेदांत समृह का इरादा 2023-24 में अपना कर्ज और घटाने और अंततः इसे शून्य पर लाने का है। मार्च 2022 में लक्ष्य की घोषणा के बाद से उसने अपने सकल कर्ज में 3.3 अरब डॉलर की कमी की है। वेदांत रिसोर्सेस का कर्ज मार्च 2022 के आखिर में 9.7 अरब डॉलर था। कंपनी ने पहले के बयान में यह जानकारी दी थी।

समृह के पास अभी भी रकम जुटाने के कई विकल्प हैं, जिनमें वेदांत की हिंदुस्तान जिंक में बची बाकी हिस्सेदारी को गिरवीरखना शामिल है। विश्लेषकों को अनुमान है कि इससे 19 करोड़ डॉलर का और कर्ज जुटाया जा सकता है।

विश्लेषकों के मुताबिक, वेदांत रिसोर्सेस की पहुंच विभिन्न बैंक जमाओं के रूप में 1.7 अरब डॉलर के फंड, बॉन्ड व म्युचुअल फंडों तक है, जिसे कर्ज चुकाने के लिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा प्रवर्तक वेदांत लिमिटेड से अतिरिक्त लाभांश की मांग कर सकते हैं, जिसने वित्त वर्ष 24 के लिए कल 83 करोड डॉलर के पहले अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है।

इसमें से वेदांत रिसोर्सेस को वेदांत लिमिटेड में अपनी 68.11 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 56.5 करोड़ डॉलर का लाभांश मिला है।

कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन

पार्थ भट्टाचार्य ने कहा कि कंपनी के

लंबे वजूद के लिए कोयले से इतर

संभावनाएं तलाशना जरूरी है मगर

अभी उसे कोयला उत्पादन पर ही

ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा,

'अभी कोयले की मांग बहुत

अधिक है, इसलिए कोल इंडिया

को कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर

30.06.2022

148.6

148.81

123.97

123.9

300.11

4.13

हिते परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड

एनपीए की

13 जन.

2023

वर्ष समाप्त

31.03.2023

(लेखापरीक्षित)

17300

724.85

723.94

552.18

552.18

300.1

18.40

जिल्लें पाल सिंह

पूर्णकालिक निदेशक

डीआईएनः 01661864

बकाया राशि

21.02.725.7

14 जुलाई

3725.99

अर्थ नहीं दिख रहा।

रिलायंस रिटेल का मूल्य तेल-रसायन से दोगुना

शार्लीन डिसजा मुंबई, 2 अगस्त

रिलायंस इंडस्टीज (आरआईएल) की खुदरा शाखा -रिलायंस रिटेल का मूल्य अब उसके दशकों पुराने और आकर्षक 'तेल-रसायन' (ओ2सी) खंड के मकाबले लगभग दोगुना हो गया है।

समृह के संबंध में बर्नस्टीन की

नवीनतम रिपोर्ट में इसके खुदरा कारोबार के लिए 112 अरब डॉलर के मूल्यांकन का अनुमान जताया गया है, जो इसके ओ2सी खंड के 57 अरब डॉलर के मूल्यांकन को बौना साबित कर रहा है। इसके अलावा अनुसंधान फर्म ने कंपनी की ई-कॉमर्स शाखा जियोमार्ट प्लेटफॉर्म्स का मुल्य 77 अरब डॉलर और अक्षय ऊर्जा कारोबार का मूल्य 17 अरब डॉलर आंका है। रिपौर्ट में ख़ुदरा कारोबार के लिए कई अवसरों की पहचान की गई है,

का विस्तार, स्थानीय किराना स्टोरों के साथ साझेदारी, मार्जिन विस्तार और रिलायंस रिटेल का प्रत्याशित प्रारंभिक सार्वजनिक (आईपीओ) शामिल है।

जिसमें जियोमार्ट और नए वाणिज्य

ब्रोकरेज ने कहा कि रिलायंस सभी खंडों में नई संभावना तलाश रही है। आरआईएल ने शेयर पुनर्खरीद के जरिये रिलायंस रिटेल (आरआर)



में अल्पांश शेयरधारक खरीद लिए। इसमें उन रिपोर्टों की ओर भी इशारा किया गया है कि किसी नए निवेशक द्वारा आरआईएल की खुदरा शाखा में 100 अरब डॉलर के मुल्यांकन पर एक प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की उम्मीद है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स (आरआरवी) ने वर्ष 2020 में वित्तीय निवेशकों को 55 अरब डॉलर के मुल्यांकन पर 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। तब से खुदरा शाखा का मुल्यांकन लगभग दोगुना हो चुका है।

बर्नस्टीन को यह भी उम्मीद है कि रिलायंस का एबिटा वित्त वर्ष 23 के 1.5 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 27 में 2.4 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। मुख्य रूप से डिजिटल रिटेल और नई ऊर्जा में वृद्धि की बदौलत ऐसा होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि ओ2सी की आय स्थिर रहेगी। हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 तक खुदरा एबिटा मिश्रण 17 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

सूर्या रोशनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रकाश नगर, सनखोल, बहादुरगढ़ - 124507 (हरियाणा) कॉरपोरेट कार्यालयः पद्मा टावर-1, दूसरी मंजिल, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)ः एल31501एचआर1973पीएलसी007543 दूरभाषः +91-1276-241540, 011-47108000 फैक्सः +91-1276-241886 वेबसाइटः www.surya.co.in, ईमेलः investorgrievances@sroshni.com

लगातार 7 वर्षों के लिए लाभांश अभुक्त/दावारहित हो चुके इक्विटी शेयरों के

निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण के संबंध में इक्विटी शेयरधारकों को सूचना एतदद्वारा यह सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित कॉरपोरेट कार मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसुचित निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण तथा रिफंड) नियमावली 2016, निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2017 द्वारा संशोधित नियमो ("आईईपीएफ नियमावलियां") के अनुपालन के तहत कंपनी द्वारा लगातार सात वर्षों अथवा अधिक समय के लिए जिनके लाभांश दावारहित है ऐसे सभी शेयरों को निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि पाधिकरण ("आईर्डपीएफ पाधिकरण") दारा चिन्हित एक द्विपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण सस्येंश खाता ("आईईपीएफ सस्येंश खाता") में हस्तांतरण किया जाना अनिवार्य है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं के अनपालन तथा सचना जारी करने के संबंध में जारी किए गए एमसीए परिपत्रों के महेनजर कंपनी के पंजीयक ने ऐसे संबंधित सभी शेयरधारकों के कंपनी/पंजीयक के पास उपलब्ध उनके पंजीकत नवीनतम पते पर ऐसे दावारहित लाभांशों के नकदीकरण/दावा जताने के अनुरोध के साथ पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेज दी है, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में हस्तांतरण किया जाना है। जिन्हें ऐसी सूचना भेजी गई है उन शेयरधारकों के विवरण के साथ प्रासंगिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.surya.co.in under 'Investor' पर उपलब्ध है।

कंपनी को अगर 30 सितम्बर, 2023 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नीचे उल्लेखित आईईपीएफ नियमो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोबारा कोई सूचना प्रदान किए आईईपीएफ नियमों में यथा निर्धारित नियत तारीख तक आईईपीएफ नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के महेनजर शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में हस्तांतरित कर देगी: संबंधित शेयरधारक द्वारा भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रहने पर

संबंधित शेयरधारक द्वारा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण

डुप्लीकेट शेयर जारी किया जाएगा एवं निगमित कार्यवाही के जरिए आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आपके नाम पर पंजीकत तथा आपके द्वारा धारित मल शेयर प्रमाणपत्र स्वतं निरस्त हो जाएंगे निगमित कार्यवाही के जरिए डिपॉजिटरी, जहां संबंधित शेयरधारको का खाता है, को सूचना प्रदान कर उस खाते से डेबिट कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा संविधिक प्राधिकारी के ऐसे शेयरों के हस्तांतरण पर रोक तथा लाभांश के भुगतान के निर्दिष्ट आदेश रहने के मामले में कंपनी ऐसे शेयरों को निधि में हस्तांतरण नहीं करेगी।

अतएव, पिछले लगातार सात वर्षों (वित्त वर्ष 2015-16 से 2022-23 के लिए) एक भी लाभांश वारंट का वैध रूप से दावा नहीं किए जाने अथव 30 सितम्बर, 2023 अथवा उससे पहले ऐसे शेयरों के संबंध में संबंधित शेयरधारकों से रोक के निर्दिष्ट आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थित में कंपनी बिना कोई सुचना जारी किए आईईपीएफ यथा निर्धारित नियमों के अनुसार कथित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरण की प्रक्रिया आरम्भ कर देगी। आगे से सभी लभांशों तथा शेयरों के संबंध में बोनस शेयर जैसी निगमित लाभों को भी आईईपीएफ के पक्ष में क्रेडिट कर दिया जाएगा संबंधित शेयरधारकगण ध्यान दें कि ऐसे हस्तांतरण किए जाने पर भी वे आईपीईएफ नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया का अनुपालन कर आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश के साथ कथित शेयरों का दावा कर सकते हैं। हालांकि, ऊपर उल्लेखित नियमों के अनुसार आईईपीएफ के पक्ष मे हस्तांतरित कथित शेयरों/दावारहित लाभांशों/निगमित लाभों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई भी दावा नहीं रहेगा।

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवम्बर, 2021 के साथ पठित परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 तथा परिपत्र सं. सेबी/एचओ,एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 ("परिपन्न") के अनुसार भौतिक प्रारूप में प्रतिभृतियां धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए पैन, केवाईसी (सम्पर्ण पता के साथ पिन कोड, बैंक के विवरण के साथ एमआईसीआर-कोड एवं आईएफएस कोड, ईमेल-आईडी, मोबाइल नम्बर) तथा नोमिनेशन का ब्यौरा कंपनी के पंजीयक तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शेयरधारक द्वारा ऊपरोक्त केवाईसी तथा नोमिनेशन का ब्यौरा प्रस्तुत करने के कार्य को सम्पन्न नहीं किए जाने तक सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध अथवा शिकायतों के संबंध में पंजीयक कोई भी कार्रवाई आरम्भ नहीं करेगा तथा आरटीए द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को अथवा उसके उपरांत ऐसे शेयरधारकों की होल्डिंग पर रोक लगा देगी। आपके हित में हमलोग आपसे दावारहित लाभांश का दावा करने के लिए नियत तारीख से पहले कंपनी/पंजीयक के पास नीचे उल्लेखित प्रासंगिक प्रपत्र/दस्तावेज के साथ पंजीकृत शेयरधारक द्वारा भलीभांति हस्ताक्षरित वचन पत्र (सादे कागज पर) भेज कर अपने लाभांश का दावा प्रस्तुत करने

तथा अपने शेयरों को आईईपीएफ के खाते में हस्तांतरण से बचने के लिए एक बार पुनः अनुरोध करते हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रहने पर

. प्रपत्र आईएसआर-1 . प्रपत्र एसएच-3

3. प्रपत्र आईएसआर-2 (आरटीए/कंपनी रिकार्ड में हस्ताक्षर के भिन्न रहने पर) . मूल लाभांश वारंट (यदि उपलब्ध है)

. प्रथम शेयरधारक के नाम वाला मूल रद्द चेक (उस पर शेयरधारक का नाम मुद्रित होना चाहिए) अथवा बैंक प्रबंधक द्वारा भलीभांति सत्यापित बैंक पास बुक की प्रतिलिपि एमआईसीआर कोड आईएफएससी कोड तथा खाता नं. सहित

6. सभी शेयरधारकों के पैन की प्रतिलिपि सभी प्रपत्र आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com यानी के डाउनलोड टैब से अथवा कंपनी की वेबसाइट www.surya.co.in के इनवेस्टर के अधीन डाउनलोड किया जा सकता है

दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतिलिपियां अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से एमएएस सर्विसेस लिमिटेड (आरटीए) के पास ईमेल आईडी investor@masserv.com पर भी भेज सकते हैं, प्रपत्रों तथा सभी साक्ष्यों पर भलीभांति ई-हस्ताक्षर किया होना चाहिए। (संबंधित शेयरधारकों को समय-समय पर पृथक रूप से संचार पहले ही भेज दिया गया है)

इस संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर संबंधित शेयरधारक कंपनी अथवा कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट के पास लिख/सम्पर्क

कर सकते हैं: पंजीयक (आरटीए) का नाम एवं पता कंपनी का नाम एवं पता सर्या रोशनी लिमिटेड मैसर्स एमएएस सर्विसेस लिमिटेड सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट टी-34. दसरी मंजिल पद्मा टावर-1, दुसरी मंजिल ओखला इंडस्टियल एरिया. फेज ॥. नई दिल्ली 110 020 5 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008 दुरभाषः 011-26387281/82/83 दरभाष-011-47108000, 47108111 फेक्सः 011-26387384 ईमेलः investor@masserv.com

सेबी के दिशानिर्देशों के अनसार भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सभी शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डिमैट प्रारूप में रूपांतरित करने का अनुरोध किया जाता है। इससे आगे सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसओ आरटीएएमबी, पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2023 के तहत विभिन्न सेवा अनरोध किए जाने पर ही डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में प्रतिभृतिय

जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

ईमेलः investorgrivances@sroshni.com

दिनांक: 2 अगस्त, 2023 स्थानः नई दिल्ली

के पास अपने बैंक का ब्यौरा अद्यतन कराएं तथा आरटीए के पास अद्यतन क्लाइंट मॉस्टर भेजें

कते सर्या रोशनी लिमिटेड

सीएफओ एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-

बी बी सिंगल

डिमैट प्रारूप में शेयर धारण रहने पर कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट

प्रदाताओं के नाम कॉलोनी, रविदास मंदिर के पास, पिंजौर, पंचकुला हरियाणा 134102 (कर्जदार), 2. सुश्री सविता वर्मा पत्नी राकेश वर्मा पताः - घर क्रमांक 961 बी-2. शिव कॉलोनी, रविदास मंदिर के पास, पिंजौर, पंचकला हरियाणा 134102 इसके अलावाः नालागढ़ रोड, पिंजौर, लोहगढ़ बस स्टॉप के पास, गांव लोहगढ़, कालका, पंचकुला, हरियाणा 134102 'सह-कर्जदार, गारंटर और

कर्जदार/जमानती(यों)/प्रतिभूत

प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण/प्रतिभूत आस्तियों का पता एवं बंधककर्ता . श्री राकेश वर्मा पुत्र रगबीर चंद वर्मा 2 बिस्वे-10 बिस्वासी (125 वर्ग गज) के आवासीय मकान पताः मकान नंबर 961 बी-2, शिव नंबर 961/बी 2 शिव कॉलोनी का समस्त भाग, खेवट नंबर 86/154 खसरा नंबर 664/246 (0-13) और 665/246 (1-12), टकडे (कित्ते) 2- 2 बीघे 5 बिस्वे = 15 बिस्वासी क 15/900 हिस्सा और खेवट/खतौनी नंबर 86/177 खसरा नंबर

247 (3-5), टुकड़े (किट्टे) 1 - 3 बीघे 5 बिस्वे = 1 बिस्वा 5 बिस्वासी भूमि का 25/1300 हिस्सा और खेवट/खतौनी नंबर 86/151 खसरा नंबर 245 (1-0) टकडे (कित्ते) 1 - 1 बीघे = 10 बिस्वासी जमीन का 1/40 हिस्सा (जमाबंदी 2016- 17) बितना (हदबस्त नंबर 153) एमसी पंचकुला (पिंजौर जोन), तहसील कालका, जिला पंचकुला, हरियाणा, बिक्री विलेख संख्या 2256 दिनांक 09.09.2019 के तहत सविता वर्मा के स्वामित्व में है। सीमाएँ- उत्तरः सुरेश, दक्षिणः हीरानंद, पूर्व खाली प्लॉट, पश्चिमः प्रवेश/गली

उपर्युक्त कर्जदारों तथा उनकी जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) (जो भी प्रयोज्य हो) को एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगता-करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत कथित 60 दिनों की समाप्त के पश्चात आगे की कार्यवाह

इसके अलावा, आपके ध्यान में यह लाया जाता है कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ हमा बकाया राशि बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है, तो हमारे द्वारा प्रतिभृत आस्ति बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, औ उस प्रतिभूत आस्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई अन्य कदम नहीं उठाया जाएगा

स्थान : कालका, पंचकुला

बंधककर्ता ')

अधिकृत प्राधिका कृते यस बैंक लिमिटेड

सांघी सीमेंट खरीदेगी अदाणी

देव चटर्जी मुंबई, 2 अगस्त

अदाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट 6 हजार करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर सांघी सीमेंट खरीदेगी। एक बैंकिंग सूत्र ने बताया कि अदाणी समृह एक सांघी सीमेंट में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपये निवेश करेगा और साथ ही कंपनी का करीब 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज भी अपने खाते में लेगा। सौदे की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। सांघी सीमेंट की उत्पादन क्षमता 61 लाख टन है और इस सौदे से अंबुजा सीमेंट और उसकी सहायक इकाई एसीसी को 2030 तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 14 करोड़ टन सालाना करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। अंबुजा अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर और एसीसी की कुल उत्पादन क्षमता 🏻 लिया था।

अभी 7 करोड़ टन सालाना है। सांघी सीमेंट कर्ज भगतान नहीं कर पाने के कारण परिसमापन की समस्या से जुझ रही थी। बीते 6 जुलाई को इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने सांघी इंडस्ट्रीज (एसआईएल) की दीर्घावधि रेटिंग को 'आईएनडी बीबी' से घटाकर नकारात्मक परिदृश्य के साथ डिफॉल्ट श्रेणी में कर दिया। सूत्रों ने कहा कि सीमेंट क्षेत्र में एकीकरण देखा जा रहा है और अल्ट्राटेक, अंबुजा-एसीसी, डालमिया और जेएसडब्ल्यू जैसी शीर्ष कंपनियां अधिग्रहण करने की तलाश में हैं। पिछले साल, जेएसडब्ल्यू, अदाणी और अल्ट्राटेक अपने पूर्वे प्रवर्तक होलसिम से अंबजा सीमेंट खरीदने की दौड़ में थे, लेकिन अदाणी ने 10.5 अरब डॉलर की बोली लगाकर

सार्वजनिक सूचना जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट लि. द्वारा 04th August 2023 को (बंधक आभषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली र्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 09th September 2023 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एव समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर

ध्यान दें: नकली / कम शुद्धता वाले आभूषणों की नीलामी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

कोहली एण्ड सोब्दी एडवीकेट ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगरना, नई दिल्ली - 110024 **नोट**: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हुमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com य 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथुट फाईनान लि. द्वारा 02nd, 03rd, 04th August 2023 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आ वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 07th. विशा त्रिष्ठा निर्माण निर्माण क्षेत्र है। सार्वजीविक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजीविक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजीविक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं। **ध्यान दें**: नकली / कम शुद्धता वाले आभूषणों की नीलामी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

कोहली एण्ड सोब्ती एडवोंकेट

ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगरनी, नई दिल्ली -110024 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके गपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com य 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रिज, आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किन्सवे केम, दिल्ली–110009 फोनं : 66112222, फैक्स : 27468042, इमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइंट : www.tatapower-ddl.com						
निविदा सूचना आमंत्रित Aug 03, 2023						
टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:						
निविदा पूछताछ सं . कार्य का विवरण	अनुमानित लागत / धरो जमा राशि	हर दस्ता	वेज	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय निविदा खोलने की तारीख और समय		
TPDDL/ENGG/ENQ/200001574/23-24 Annual Rate Contract for Supply of GI Pipe (40mm,100mm& 150mm)	74 Lacs 1,86,000		2023	25.08.2023;1500 Hr 25.08.2023;1530 Hr		
शुद्धिपत्र / निविदा तिथि विस्तार						
निविदा पूछताछ सं . कार्य का विवरण	,	पूर्व काशित	संश जम	ोधित निविदा तिथि/बोर ग कराने की तिथि/बोर्ल		

खोलने की तिथि दिनांक TPDDL/ENGG/ENQ/200001564/23-24 16.08.2023 at 1600 Hrs/ 16.08.2023 at 1630 Hrs 07.07.2023 ISS Implementation at new Upcoming Grids

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

Contracts - 011-66112222